



Kubota
Escorts Kubota Limited

August 5, 2022

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001 BSE – 500495	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai – 400051 NSE – ESCORTS
--	--

Sub: Newspaper publication in relation to the application proposed to be made to the Central Government

Dear Sir/ Madam,

Please find attached herewith the enclosed following newspapers clipping (covering Faridabad region), wherein general notice has been published by the Company, under section 201 of the Companies Act, 2013, indicating the nature of application proposed to be made to the Central Government.

- 1) Financial Express, dated August 5, 2022
- 2) Jansatta, dated August 5, 2022

The above is for your kind information and records.

Thanking You,

Thanking you,
Yours faithfully,
For **Escorts Kubota Limited**



Satyendra Chauhan
Company Secretary and Compliance Officer

Encl.: As above

Note: The Equity Shares of the Company were listed on the Delhi Stock Exchange Limited (DSE). However, DSE has been de-recognised and allowed to exit as a stock exchange by SEBI by way of SEBI's Order No. WTM/ SR/ SEBI/ MRD-DSA/ 04/ 01/ 2017 dated 23 January 2017. For avoidance of doubt, the securities of the Company are not listed on DSE owing to DSE having been de-recognised by SEBI.

ESCORTS KUBOTA LIMITED
(Formerly Escorts Limited)

Registered Office: 15/5, Mathura Road, Faridabad 121 003, India
Tel.: +91-129-2250222

E-mail: escortsgroup@escorts.co.in Website: www.escortsgroup.com
Corporate Identification Number L74899HR1944PLC039088

Ujivan Small Finance Bank SECOND FLOOR, GMITT BUILDING D-7 SECTOR 3 NOIDA (U.P.) 201301

POSSESSION NOTICE (for Immovable property) [Rule 8(1)]

Whereas, The undersigned, being the Authorized Officer of Ujivan Small Finance Bank Ltd., under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice to borrower/ Guarantor on the dates mentioned hereunder, calling upon the Borrower(s) / Guarantor(s) to repay the amount mentioned in the respective demand notice within 60 days of the date of the notice.

The Borrower/Co-Borrower/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Mortgagor, Co-Borrower/Mortgagor, Co-Borrower and the public in general that the undersigned has taken **SYMBOLIC POSSESSION** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of the said Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002, on the dates mentioned against each account.

The Borrower/Mortgagor's, Co-borrower/Mortgagor's and Co-borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

The Borrower/Mortgagor, Co-Borrower/Mortgagor and Co-Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Ujivan Small Finance Bank Ltd. for an amount of for the amount(s), mentioned herein below besides interest and other charges / expenses against each account.

Name of Borrower/ Co-Borrower/Mortgagor	Description of the Immovable property	Date of Demand Notice and Date of possession	Amount as per demand notice
Mr. Dhanpal Bairwa S/o Amar Lal, Mohi Ka Barda, Matunda, Bundi, Rajasthan-323001. Also at: Mr. Dhanpal Bairwa S/o Amar Lal, Ward No. 12, Gandhigram, Matunda, Bundi, Rajasthan-323001. Also at: Mr. Dhanpal Bairwa S/o Amar Lal, H. No. 64, Mahuva Ka Barda, Matunda, Bundi, Rajasthan-323001 and Co-Borrowers: Mrs. Rani Bai W/o Dhanpal Bairwa, Ward No. 12, Gandhigram, Matunda, Bundi, Rajasthan-323001. Also at: Mrs. Rani Bai W/o Dhanpal Bairwa, Mohi Ka Barda, Matunda, Bundi, Rajasthan-323001. Also at: Mrs. Rani Bai W/o Dhanpal Bairwa, H. No. 64, Mahuva Ka Barda, Matunda, Bundi, Rajasthan-323001. In Loan Account No. 225210170000084.	All that piece and parcel of land and building, of the property, area admeasuring 1288 Sq. Feet, situated at Patta No. 8704, Village Matunda, Tehsil Bundi & District Bundi, Rajasthan and which is bounded as under; Boundaries: East: Rasta, West: Plot of Ramphool, North: House of Hemraj Bairwa, South: House of Fundi Lal Raigar.	Date of Demand Notice: 13.10.2021 Date of possession: 04.08.2022	Rs. 5,99,265/- as on 12.10.2021 & interest thereon
Mr. Jagdish Choudhary S/o Jagdish Choudhary, H. No. 233, Bade Kuen Ka Rasta, Jameelpura, Bundi, Rajasthan - 323021. Co-Borrowers: Mrs. Manju Choudhary W/o Jagdish Choudhary, H. No. 233, Bade Kuen Ka Rasta, Jameelpura, Bundi, Rajasthan - 323021. In Loan A/c No. 2224210170000005.	All that piece and parcel of land and building, of the Residential Property, of Patta No. 3763 part of Khasra No. 676, area admeasuring 2116 Sq. Feet, situated at Village Jamtpura, Tehsil- Talera, District Bundi, Rajasthan, which is bounded as follows: Boundaries: East: Self Plot, West: Maksud Bhai, North: Aam Rasta, South: House of Imamuddin Mewati.	Date of Demand Notice: 13.12.2021 Date of possession: 04.08.2022	Rs. 5,40,186/- as on 13.12.2021 & interest thereon
Mr. Kanhaiya Lal Jagdish S/o Satyanarayan, Satyanarayan Mandir K. Pas, Dehit, Bundi, Rajasthan - 323021 and Co-Borrowers: Mrs. Kamlesh W/o Kanhaiya Lal Jagdish, Satyanarayan Mandir K. Pas, Dehit, Bundi, Rajasthan - 323021. In Loan Account No. 2224210170000020.	All that piece and parcel of land and building, of the Property admeasuring 1204 Sq. Feet having Patta No. 2364 (Part of Khasra No. 1087) Village Dehit, Tehsil Talera, District Bundi which is bounded as follows: Boundaries: East: House of Ram Ratan, West: House of Brjji Mohan Mali, North: Khat, South: Aam Rasta.	Date of Demand Notice: 20.09.2021 Date of possession: 04.08.2022	Rs. 4,64,224/- as on 19.09.2021 & interest thereon
Mr. Bablu Kewat S/o Ram Swaroop, H. No. 54, Ganesh Ji Ki Chhatr, Vadev Ji Ka Mandir, Ward No. 4, Kheda Mohalla, Keshoraiapatan, Near Hanuman Mandir, Bundi, Rajasthan-323601, and Co-Borrowers: Mr. Ram Swaroop S/o Gajanan, H. No. 54, Ganesh Ji Ki Chhatr, Vadev Ji Ka Mandir, Ward No. 4, Kheda Mohalla, Keshoraiapatan, Near Hanuman Mandir, Bundi, Rajasthan-323601, and Mrs. Nati Bi W/o Ram Swaroop, H. No. 54, Ganesh Ji Ki Chhatr, Vadev Ji Ka Mandir, Ward No. 4, Kheda Mohalla, Keshoraiapatan, Near Hanuman Mandir, Bundi, Rajasthan-323601. Also at: Mrs. Nati Bi W/o Ram Swaroop, H. No. 214, Near Jain Mandir, Keshoraiapatan, Bundi, Rajasthan-323601. In Loan Account No. 222421040000006.	All that piece and parcel of land and building, of the Property, area admeasuring 900 Sq. Feet, situated at Patta No. 1633, Ward No. 5, Tehsil Keshoraiapatan, District Bundi - Rajasthan, which is bounded as follows: Boundaries: East: House of Ram Ratan, West: House of Brjji Mohan Mali, North: Khat, South: Aam Rasta.	Date of Demand Notice: 14.07.2021 Date of possession: 04.08.2022	Rs. 3,64,428/- as on 13.07.2021 & interest thereon
Mr. Rakesh Kumar S/o Latur Lal, Karkara Bazar, Ward No. 13, Keshoraiapatan, Bundi, Rajasthan-323601. Also at: Rakesh Tea Stall, Sabzi Mandi, Ward No.13, Keshoraiapatan, Bundi, Rajasthan-323601 and Co-Borrowers/ Mortgagors Mr. Latur Lal S/o Duga Lal, Karkara Bazar, Ward No.13, Keshoraiapatan, Bundi, Rajasthan-323601. Also at: Bansi Bai W/o Latur Lal, Karkara Bazar, Ward No.13, Keshoraiapatan, Bundi, Rajasthan-323601. Also at: Bansi Bai, Kayalya Ji Ki, Keshoraiapatan, Bundi, Rajasthan-323601. In Loan Account No. 222521040000000.	All that piece and parcel of land and building, of the Property, having an area of 517 Sq. Ft. situated at Patta No.120(1507) Keshoraiapatan, Tehsil: Keshoraiapatan, District: Bundi, Rajasthan, which is bounded as follows: Boundaries: East: House of Badrinal Sharma, West: House of Ramnarayan Ji Prajapat and Rasta, North: House of Ramliji Prajapat, South: House of Ramnarayan Ji.	Date of Demand Notice: 20.09.2021 Date of possession: 04.08.2022	Rs. 3,46,035/- as on 19.09.2021 & interest thereon

Date: 04.08.2022 Place: Bundi Authorized Officer

APM TERMINALS Lifting Global Trade.

GUJARAT PIPAVAV PORT LIMITED

Registered Office : Pipavav Port, At Post Rampara-2, Tal. Rajula, Dist. Amreli, Gujarat 365560.
CIN: L63010GJ1992PLC018106 Tel: 02794 242400 Fax: 02794 242413 Website: www.pipavav.com Email: investorrelationppvp@apmterminals.com

STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022

(Amt in Rs Million)

Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
	3 months ended	Preceding 3 months ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	Year ended	3 months ended	Preceding 3 months ended	Corresponding 3 months ended in the previous year	Year ended
	30/06/2022	31/03/2022	30/06/2021	31/03/2022	30/06/2022	31/03/2022	30/06/2021	31/03/2022
Total Income from Operations (net)	2,081.26	2,206.60	1,596.19	7,435.38	2,081.26	2,206.60	1,596.19	7,435.38
Net Profit / (Loss) from Ordinary activities after Tax (after extra ordinary items)	575.25	723.94	321.63	1,935.97	593.39	750.89	327.65	1,976.85
Paid-up equity share capital (Face value Rs. 10 per share)	4,834.40	4,834.40	4,834.40	4,834.40	4,834.40	4,834.40	4,834.40	4,834.40
Other Equity as per the balance sheet of previous accounting year	-	-	-	-	-	-	-	-
Earnings per share (before and after extra ordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised)	1.19	1.49	0.67	4.00	1.23	1.54	0.68	4.08
Diluted:	1.19	1.49	0.67	4.00	1.23	1.54	0.68	4.08

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarter end Financial results filed with Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter end financial results is available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website, www.pipavav.com.

Place: Pipavav
Date : 3rd August 2022

For Gujarat Pipavav Port Limited
Jakob Friis Sorensen
Managing Director

AXIS BANK LTD. POSSESSION NOTICE

Retail Asset Centre: 1st Floor, G-4/5, B, Sector-4, Gomti Nagar Extension Lucknow, UP 226010.
Registered Office: "Trishul"-3rd Floor, Opp. Samarsheswar Temple, Near Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006.

Whereas the undersigned being the Authorized Officer of **AXIS BANK LTD.** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of power conferred under section 13(12) read with Rule-9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand notice under section 13(2) of the said Act. The borrower/s mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s mentioned here in above in particular and to the public in general that the undersigned has taken Physical Possession of the property described herein below in exercise of powers confer on him under section 13(4) of the said Act read with the rule of the said Rules. The borrower/s mentioned here in above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the said property and any dealings with the said property will be subject to the mortgage of **AXIS BANK LTD.** for an amount together with further interest incidental expenses, costs, charges, etc. on the amount mentioned against each account herein below. The Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s) attention is invited to provisions of sub-section(8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Name of the Borrowers/ Guarantors/Address	Description of the Mortgaged Property	Amt: Due as per Demand notice	Date Demand notice	Possession Date	Type of Possession
M/s Kartik Feed Industry (Borrower), C/o Vill - Murliwala, Near Radhaswami satsang Bhawan, Jaspur, Udhampur Singh Nagar, Uttarakhand- 244712, Through its Proprietor - Manoj Kumar S/o Bhopal Singh, Kaushal Chauhan (Guarantor) S/o Sh. Krapal Singh, both R/o-1, House No. 175, Moh- Gujaratiyan Uttari, Near Gandi Park, Vill- Jaspur, P.S- Jaspur, Dist- Udhampur Singh Nagar, Uttarakhand- 244712, R/o-2: Khasra No. 209, Mauza- Murliwala, Tehsil- Jaspur, Dist- Udhampur Singh Nagar, Uttarakhand- 244712.	Land/Property Admeasuring Area 680.00 Sq Mt., Situated at Khasra No. 209, Mauza- Murliwala, Tehsil- Jaspur, Dist- Udhampur Singh Nagar, Uttarakhand- 244712. Bounded as: East- Property of Vikram Singh, West- Nala, North- Satsang Bhawan, South- Plot Number 557.	Rs. 35,86,831.25 + interest & other expenses	20.12.2017	02.08.2022	Physical Possession

Date: 05.08.2022 Place: Ludhiana Authorized Officer, Axis Bank Ltd.

Choice International Ltd. Equity | Commodity | Currency | Wealth Management Investment Banking | Management Consulting
CIN NO : L67190MH1993PLC071117

Reg Office : Sunil Patodia Tower, Plot No 156-158, J.B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400099
Tel No : +91-22-6707 9999 Website : www.choiceindia.com Email Id: info@choiceindia.com

EXTRACT OF UN-AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON JUNE 30, 2022

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			
		Un-Audited		Audited	
		30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022
1	Total Income	7871.17	9338.38	6156.06	28595.59
	(a) Revenue from Operation	7448.24	8483.02	5999.61	27181.8
	(b) Other Income	422.93	855.36	156.45	1413.79
2	Net profit for the period before tax (before exceptional items)	1171.2	2117.57	1804.41	7363.58
3	Net profit for the period before tax (after exceptional items)	1171.2	2117.57	1804.41	7363.58
4	Net profit for the period after tax (after exceptional items)	769.00	1536.45	1294.74	5360.45
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising profit for the period after tax and other Comprehensive Income after tax)	770.33	1516.02	1302.29	5356.39
6	Reserves as shown in Audited Balance Sheet	-	-	-	31853.44
7	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs. 10 each)	4975.60	4975.60	3980.48	4975.60
8	Earning per share (quarter numbers are not annualised)				
	(a) Basic (Rs.)	1.55	3.97	4.02	13.84
	(b) Diluted (Rs.)	1.55	3.97	4.02	13.84

Notes :
1. The above un-audited financial results for the Quarter ended on June 30, 2022, have been reviewed by the Audit Committee of the Board and recommended for approval and approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on August 04, 2022 and the Statutory Auditors of the Company have issued an unmodified review report.
2. Key data relating to standalone financial results of Choice International Limited are as follows: (Rs. in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			
		Un-Audited		Audited	
		30.06.2022	31.03.2022	30.06.2021	31.03.2022
1	Revenue	290.24	250.52	283.78	1127.57
2	Profit Before Tax	73.42	61.34	109.31	360.33
3	Profit after Tax	53.45	45.36	79.12	243.63
4	Other Comprehensive Income	(0.61)	(2.78)	0.11	(2.46)
5	Total Comprehensive Income	52.84	42.58	79.23	241.17

The above is an extract of the detailed format of the Consolidated financial results for the Quarter ended on June 30, 2022 filed with the Stock Exchange under regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the standalone financial results and the Consolidated Financial Results for the Quarter ended on June 30, 2022 are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and Company's Website: <https://choiceindia.com/investor/financial-info/>

For Choice International Limited
Sd/-
KAMAL PODDAR
Managing Director
DIN-01518700

Place : Mumbai
Date : August 04, 2022

Kubota Escorts Kubota Limited
(Formerly Escorts Limited)
CIN: L74899HR1944PLC039088
Regd. Office: 15/5, Mathura Road, Faridabad - 121003, Haryana, Phone: 0129-2250222
E-mail: corpl@escorts.co.in | Website: www.escortsgroup.com

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to Section 201 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), that Escorts Kubota Limited intends to make an application to the Central Government under Sections 196, 197 read with Schedule V of the Act for seeking an approval under Section 196 and other applicable provisions, if any, read with Part 1 of the Schedule V of the Act, for the appointment of Mr. Seiji Fukuoka as Whole-time Director designated as Deputy Managing Director of the Company for a period of five years with effect from May 13, 2022, at a remuneration and subject to the terms and conditions approved by the Board of Directors and the shareholders of the Company, subject to receipt of approval from the Central Government.

For Escorts Kubota Limited
Sd/-
Satyendra Chauhan
Company Secretary & Compliance Officer

Date: August 4, 2022
Place: Faridabad

SEL Manufacturing Company Limited
(CIN: L51909PB2000PLC023679)
Regd. Office: 274, Dhandari Khurd, G.T. Road, Ludhiana 141 014
Ph.: +91-161-7111117, Fax: +91-161-7111118, Website: www.selindia.in

NOTICE

Pursuant to the provisions of The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we may inform you that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the 12th day of August, 2022, to consider and approve among other things the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2022.

This information is also available on the website of the Company viz. www.selindia.in and the website of the Stock Exchanges where the Company's Shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com).

For SEL Manufacturing Company Ltd.,
Sd/-
NAVEEN ARORA
WHOLE TIME DIRECTOR

Date : 04.08.2022
Place : Ludhiana

indianexpress.com

I choose substance over sensation.
Inform your opinion with credible journalism.

The Indian Express
JOURNALISM OF COURAGE

IN THE COURT OF THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL AND SPECIAL SUB JUDGE OF COIMBATORE
M.C.O.P.No. 338 / 2021
M. Saraswathi ... Petitioner
- vs -
Rajasekar, S/o. Deepark, Grambaranama Post, Gopalpur P.S., Warisa-Iiganj, Biranawan, Nawada, Bihar - 805130. ... Respondents

NOTICE

Please take notice that the petitioner above named case filed a HCOP case against you before the Hon'ble Court, Coimbatore. The case is posted for your appearance on 10.08.2022. Unless you appear before the Court, Coimbatore at 10.30 AM. The Hon'ble Court will pass appropriate orders as against you.

V.P. NEHRU, B.A., B.L., N. BAVITHRAN, B.Com., B.L., Advocates, Coimbatore, Tamilnadu

TRANSCORP INTERNATIONAL LIMITED
CIN : L51909DL1994PLC235697
Registered office:- Plot No. 3, HAF Pocket, Sec. 18A, Dwarka, Phase-II, New Delhi-110075
Website: www.transcorpint.com, E-mail: grievance@transcorpint.com
Phone: 0141-4004888, 999, Fax: 0141-4004888

Extract of unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June 2022 (Rs. in Lakhs except per share data)

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter		Year		Quarter		Year	
		Ended 30.06.2022	Ended 31.03.2022	Ended 30.06.2021	Ended 31.03.2022	Ended 30.06.2022	Ended 31.03.2022	Ended 30.06.2021	Ended 31.03.2022
1	Total Income from Operations & Other Income	77,691.01	69,731.86	39,582.47	231,682.62	77,828.82	69,639.31	39,641.53	231,859.23
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	43.92	49.33	(45.40)	53.53	51.10	(368.15)	(80.51)	(554.75)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	43.92	49.33	(45.40)	53.53	51.10	(73.25)	(80.51)	981.74
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	30.22	24.09	(31.23)	26.97	34.21	(34.15)	(57.08)	1,011.96
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	28.81	24.59	(30.68)	30.69	44.28	(30.31)	(1.11)	1,173.22
6	Equity Share Capital (of Rs. 2/- per share)	635.65	635.65	635.65	635.65	635.65	635.65	635.65	635.65
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs.2/- each) (for continuing and discontinued operations) -								
	1. Basic:	0.10	0.08	(0.10)	0.08	0.11	(0.11)	(0.19)	3.18
	2. Diluted:	0.10	0.08	(0.10)	0.08	0.11	(0.11)	(0.19)	3.18

Note 1. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee in its meeting held on 4th August 2022. The same has been approved and taken on record by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 4th August 2022. The statutory Auditor of the company has expressed an un-modified opinion on these financial results.
2. The above is an abstract of the detailed format of quarterly and year ended financial results filed with BSE under regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on BSE's website at www.bseindia.com and on the Company's website at www.transcorpint.com.

For Transcorp International Limited
Sd/-
Gopal Krishan Sharma
DIN: 00016883
Managing Director

Sd/-
Dilip Kumar Morwal
Group Company Secretary
ACS:17572

Sd/-
Bhanu Prakash Sharma
Chief Financial Officer

Date : 04.08.2022
Place : Jaipur

DESCRIPTION OF MOVABLE / IMMOVABLE PROPERTY

ALL THAT PART AND PARCEL OF PROPERTY BEING Mortgage of Entire Immovable Property No. SK-116, Shastri Nagar, Ghaziabad
Date : 03-08-2022, Place : Ghaziabad Authorized Officer, Punjab National Bank

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank
... the name you can BANK upon!

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Punjab National Bank, Zonal Sastra Centre, Delhi, 1st Floor, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a revised demand notice on the dated 20 April 2022 earlier demand notice issued on 27 May 2016 upon the borrower: Radhey Shyam Tandon Pvt Ltd (Borrower), Veena Tandon, Megha Tandon, Diksha Tandon, Anu Tandon, Anil Tandon, Sunil Tandon, Nikhil Tandon, Radhe Sham Tandon Mfg. Pvt. Ltd., Mr. Brji Mohan Tandon to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 56,23,06,352.10 (Rs Fifty Six Crore Twenty Three Lakh Six Thousand Three Hundred Fifty Two and Paise Ten Only) as on 31 March 2022 with further interest, within 60 day from the date of notice(s)/date of receipt of the said notice(s).

The Borrower(s) / Partner(s) / Mortgagor(s) / Guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/Co-Borrower (s)/ Mortgagor(s)/ Guarantor(s) and the Public in General that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules 2002 on this 03rd day of August of the year 2022.

The Borrower(s) / Partner(s) / Mortgagor(s) / Guarantor(s) in particular and the Public in General is hereby cautioned not to deal with the properties/ies and any dealings with the properties/ies will be subject to the charge of the Punjab National Bank, Zonal Sastra Centre, Delhi, 1st Floor, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 for an Rs. 56,23,06,352.10 (Rs Fifty Six Crore Twenty Three Lakh Six Thousand Three Hundred Fifty Two and Paise Ten Only) as on 31 March 2022 with further interest thereon at the contractual rate of interest and other expenses until payment in full.

The Borrower(s) / Partner(s) / Mortgagor(s) / Guarantor(s)'s attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

- Commercial Property No. 6182-89, Ground Floor, Ward No. XIV, Basti Harphool Singh Nawab Road Sadar Bazar, Delhi-110006 & One Toilet of 3 Feet 6.5 Feet (67.1 sq yd) without roof right in the Name of Mrs. Veena Tandon
- EM of 1st Floor of the Property MCD No. 6182-6189, Basti Harphool Singh Sadar Thana Road Delhi-110006 (193 sq ft) standing in the name of Mrs. Veena Tandon
- Residential House Bearing No. 11 on Road No. S-15 DLF City Phase III, Nathupur, Gurgaon, Haryana area 401.86 sq yard in the Name of Mrs. Veena Tandon, Mrs. Megha Tandon, Ms. Diksha Tandon, Mrs. Anu Tandon, Mr. Anil Tandon, Mr. Sunil Tandon & Mr. Nikhil Tandon
- Second Charge on Industrial Plot No. 512, Sector-37 Pace City, Phase-II, Gurugram area 1000 sq mtrs. In the Name of M/s Radhey Sham Tandon Mfg Pvt Ltd (1st Charge With HSIIDC)

Date : 03-08-2022, Place : New Delhi Authorized Officer, Punjab National Bank

कच्छ में बीएसएफ ने मछली पकड़ने वाली दो पाकिस्तानी नौकाएं जब्त कीं

अहमदाबाद, 4 अगस्त (भाषा)।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने गुरुवार की सुबह गुजरात के कच्छ जिले में भारत-पाक सीमा के निकट क्रीक क्षेत्र में मछली पकड़ने वाली दो पाकिस्तानी नौकाएं जब्त कीं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बीएसएफ ने एक विज्ञप्ति में कहा

कि हरामी नाला क्रीक क्षेत्र में अवैध रूप से भारतीय जलक्षेत्र में प्रवेश करने वाले पाकिस्तानी मछुआरे बीएसएफ के गश्ती दल को देखकर अपनी नौकाओं को छोड़कर समुद्री सीमा के किनारे भागने लगे। इसमें कहा गया है कि नावों में मछली पकड़ने के उपकरण और जाल पाए गए, लेकिन कोई संदिग्ध सामान नहीं

मिला है। बता दें कि जहां एक ओर सुरक्षा कारणों से भारतीय मछुआरों को खाड़ी में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है, वहीं पाकिस्तानी मछुआरे अक्सर यहां अवैध रूप से प्रवेश करते हैं। पिछले महीने, बीएसएफ ने खाड़ी क्षेत्र से दस नौकाओं के साथ चार पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा था।

Hero FinCorp Limited
CIN: U74899DL1991PLC046774
Registered office: 34, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057
Corporate office: 9, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110057
Fax: 011-49487197, Tel. No: 011-49487150, Website: www.herofincorp.com

Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the quarter ended June 30, 2022			
₹ in Crore			
S. No.	Particulars	Quarter ended	
		June 30, 2022 (Unaudited)	June 30, 2021 (Unaudited)
1	Total Income From Operations	1,393.15	1,042.27
2	Net Profit/ (loss) for the period (before tax and exceptional items)	145.63	(379.24)
3	Net Profit/ (loss) for the period before tax (after exceptional items)	145.63	(379.24)
4	Net Profit/ (loss) for the period after tax (after exceptional items)	109.14	(283.29)
5	Total Comprehensive income/ (loss) for the period [Comprising profit/ (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	72.79	(282.89)
6	Paid up Share Capital:-	2,127.31	127.31
	(i) Equity Share Capital	127.31	127.31
	(ii) Compulsorily Convertible Preference Shares (CCPS)	2,000.00	-
7	Reserves (excluding revaluation reserve)	4,773.98	4,632.92
8	Securities Premium Account	3,940.30	3,946.30
9	Net worth	6,901.29	4,760.23
10	Paid up debt capital/outstanding debt	25,408.72	21,122.59
11	Outstanding redeemable preference shares	-	-
12	Debt Equity ratio	3.68	4.44
13	Earning per share (of Rs. 10 each)		
	i). Basic :*	8.57	(22.25)
	ii). Diluted :*	8.18	(22.25)
14	Capital Redemption Reserve	-	-
15	Debenture Redemption Reserve	-	-
16	Debt Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.
17	Interest Service Coverage Ratio	N.A.	N.A.

*not annualised
Notes:
a) The financial results for the quarter ended June 30, 2022 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on August 03, 2022. A limited review of financial results for the quarter ended June 30, 2022 has been carried out by the Joint Statutory Auditors.
b) The above is an extract of detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarterly standalone financial results are available on the websites of National Stock Exchange (NSE) of India at www.nseindia.com and the Company at <https://www.herofincorp.com/investor-relations/disclosures-under-regulation-62-of-the-SEBI-LODR/financial-performance>
c) For the items referred in sub-clauses of the Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange and can be accessed at www.nseindia.com and the Company at <https://www.herofincorp.com/investor-relations/disclosures-under-regulation-62-of-the-SEBI-LODR/financial-performance>

For and on behalf of the Board
Sd/-
Renu Munjal
Managing Director

अनंत राज लिमिटेड
 (पूर्व का अनंत राज इण्डस्ट्रीज लिमिटेड)
 सीआईएन : L45400HR1985PLC021622
 पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. सीपी-1, सेक्टर-8, आईएमटी मानेर, हरियाणा-122051, टेलीफैक्स : 0124-4265817
 मुख्य कार्यालय : एच-65, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001, दूरभाष : 011-43034400, 011-23324127
 ई-मेल : manojpahwa@anantrajlimited.com, वेबसाइट : www.anantrajlimited.com

30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही हेतु असेराशीरित समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश
 (प्रति शेयर आय छोड़कर राशि रु. करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
		30.06.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2022 (लेखापरीक्षित) [नोट 2 का संदर्भ लें]	
1.	कुल आय	168.94	230.65	501.24
2.	अवधि हेतु निवल लाभ (कर, अपवादित मदों से पूर्व तथा एसोसिएट्स एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में लाभ (हानि) का शेयर)	29.41	27.35	71.52
3.	अवधि हेतु निवल लाभ (कर पूर्व, एसोसिएट्स एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में लाभ(हानि) का शेयर तथा अपवादित मदों के पश्चात)	29.41	27.35	71.52
4.	कर पश्चात अवधि हेतु निवल लाभ (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात एवं एसोसिएट्स एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में लाभ (हानि) का शेयर)	23.78	22.58	54.89
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ सहित (कर पश्चात) एवं अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल]	23.78	22.90	55.21
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (रु. 2/- प्रत्येक के फस वैल्यू)	59.02	59.02	59.02
7.	अन्य इक्विटी (पुनर्मूल्यांकन आरक्षियों को छोड़कर आरक्षियों)	-	-	2580.08
8.	आय प्रति शेयर (इपीएस) (रु. 2/- प्रत्येक के) (क) बैसिक इपीएस (रु.) (वार्धिकीकृत नहीं) (ख) इंड्यूस्त्रियल इपीएस (रु.) (वार्धिकीकृत नहीं)	0.84 0.76	0.77 0.70	1.92 1.74

1. 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के उपर्युक्त समेकित वित्तीय परिणामों समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी और 3 अगस्त, 2022 को आयोजित निदेशक मण्डल की सम्बद्ध बैठक में उनके द्वारा अनुमोदित की गयी। कम्पनी के वित्तीय लेखापरीक्षकों ने इन परिणामों की समीक्षा समीक्षा की है।
 2. 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के आंकड़े 31 मार्च, 2022 को समाप्त पूर्व वित्त वर्ष के परिप्रेष्य में लेखापरीक्षित आंकड़ों तथा प्रारंभिक वित्त वर्ष के भी माह तक वर्ष तक प्रकाशित अलेखापरीक्षित आंकड़ों के मध्य सन्तुलनकारी आंकड़े हैं।
 3. ये समेकित वित्तीय परिणाम यथासंशोधित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक ("इंड एएस") के अधिज्ञान एवं मापन सिद्धान्तों के अनुरूप तैयार किये गये हैं। कथित वित्तीय परिणाम कम्पनी, इसकी अनुपस्थिति में "समूह" के नाम से संदर्भित हैं के परिणामों तथा संयुक्त उपक्रमों एवं एसोसिएट्स के परिणामों में इसके शेयरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें जिन्हें इष्ट एवं/अथवा -110-'समेकित वित्तीय विवरण' तथा इष्ट एवं -28 '(एसोसिएट्स एवं संयुक्त उपक्रमों में निवेश) के अनुरूप तैयार किया गया है।
 4. 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही हेतु कम्पनी के स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम कम्पनी की वेबसाइट (www.anantrajlimited.com) पर उपलब्ध हैं।

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त छमाही (लेखापरीक्षित)
		30.06.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2022 (लेखापरीक्षित) [नोट 2 का संदर्भ लें]	
1.	कुल आय	150.78	140.93	401.78
2.	कर पूर्व निवल लाभ/(हानि)	27.97	22.44	69.34
3.	कर पश्चात निवल लाभ/(हानि)	21.09	24.51	55.89
4.	अन्य व्यापक आय/(हानि)	-	0.16	-0.16
5.	कुल व्यापक आय/(हानि)	21.09	24.67	56.05

5. उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) नियम, 2015 के नियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दर्ज 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्राप्क का सारांश है। 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के कम्पनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन तथा समेकित) वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्राप्क नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया एवं बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.nseindia.com) तथा www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट www.anantrajlimited.com पर उपलब्ध है।
 निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से कृते अनंत राज लिमिटेड
 (अमित सरिन)
 प्रबंध निदेशक
 डीआईएन : 00015837

Kubota
Escorts Kubota Limited
 (पूर्व में एस्कोर्ट्स लिमिटेड)
CIN: L74899HR1994PLC039088
 पंजीकृत कार्यालय: 15/5, प्युआ रोड, फरीदाबाद-121003, हरियाणा, फोन: 0129-2250222
 ई-मेल: corpsl@escorts.co.in | वेबसाइट: www.escortsgroup.com

सूचना
 कंपनी अधिनियम, 2013 ("द एक्ट") की धारा 201 के अनुसार एतद्वारा सूचित किया जाता है कि एस्कोर्ट्स कुबोटा लिमिटेड धारा 196,197 के तहत केंद्र सरकार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक है, जिसे धारा 196 के तहत अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ा जाए तथा यदि कोई अन्य लागू प्रावधान हो, तो उन्हें अनुसूची V के भाग 1 के साथ पढ़ा जाए। उपरोक्त विवरणानुसार दिनांक 13 मई, 2022 से श्री सेजीफुडकोका पूर्णकालिक निदेशक के रूप में 5 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के उप प्रबंध निदेशक के रूप में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नियम और शर्तों के अनुरूप नामित किया जाता है, जो कंपनी की शेरधारक, केंद्र सरकार से अनुमोदन की प्राप्ति के अधीन है।
 एस्कोर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के लिए एस्डी/- सत्येंद्र चौहान कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court of Ms Divya Sharma JMJC Ludhiana Date: 07-09-2022
 next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on <http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana>
 CNR NO: PBLD03-049142-2019
Kotak Mahindra Bank Limited
 Vs
Dilbagh Singh
 Publication Issued To: Dilbagh Singh Son Of Not Known Address- R/o Rahim Nagar Grant Kheri Lakhpaur Assam 262802
 Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 07-09-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details login to: https://highcourtdc.gov.in/?rs=distrcit_notice&distrcit= Ludhiana JMJC Ludhiana

आरसीआई इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
 सीआईएन: L74900DL1992PLC047055
 पंजीकृत कार्यालय: युनिट नंबर 421, चौथा तल, पूर्व ओम्बेस, नोवाजी सुभाष प्लेस, दिल्ली-110034
 फोन: +91-11-2732194/87
 ईमेल: compliance@rcind.com
 वेबसाइट: www.rcind.com
नॉर्ड बैंक की सूचना
 एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियम, 2015 (संशोधन) के नियम 47 के साथ पठित नियम 29 के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सन्-साथ, 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन और समेकित) पर विचार करने और अनुमोदन करने के लिए आयोजित किया जाता है।
 यह पुनः सूचित किया जाता है कि सेबी (संसाधक ट्रेडिंग का नियम) नियम, 2015, तथा संशोधन पर संशोधित किया गया, के लागू नियमों के अन्तर्गत में निवेश किए गए नामित व्यक्तियों ("आधार सहायक") द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए कंपनी की आधार सहायक के अनुसार कंपनी की प्रतिक्रियाओं में लेनदेन के लिए "ट्रेडिंग विंडो", 30 जून 2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 (अठ्ठातीस) घंटे बाद तक अधिकारियों, नामित कर्मचारियों और जुड़े व्यक्तियों के लिए बंद रहेगी।
 यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट <https://www.rcind.com> के साथ-साथ बीएसई की वेबसाइट <http://www.bseindia.com> पर भी उपलब्ध है।
 कृते आरसीआई इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा /- सचिव रत्नोती दिनांक: 05.08.2022 कंपनी सचिव एम. नं. 18636

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court of Ms Divya Sharma JMJC Ludhiana Date: 08-09-2022
 next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on <http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana>
 CNR NO: PBLD03-001967-2019
Kotak Mahindra Bank Limited
 Vs
Shonendra Singh
 Publication Issued To: Shonendra Singh Address- R/o H. No 7, Bhola Rawal Dabri Sursura Gurao Bada Nagra Up Noida U.P. 203207
 Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 08-09-2022 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. For details login to: https://highcourtdc.gov.in/?rs=distrcit_notice&distrcit= Ludhiana JMJC Ludhiana

प्रश्न सं. आईएनसी - 26
 [कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
केन्द्र सरकार उन्नी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के अन्तर्गत (ए) के मामले में
तथा
मोवायरो टेक्नो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय: सी-1206, वेस्टेक पार्क व्यू आनंद, सेक्टर 81, गुडगांव, हरियाणा में है, के मामले में
आवेदक
 एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "हरियाणा राज्य" से "राजस्थान राज्य" में उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को निदेश करने के लिए 20.7.2022 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विरोध प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन के परिचयन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी के निदेशक, उन्नी क्षेत्र, नई दिल्ली के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एससी-21 धारा (4) के अंतर्गत अपने अधिकारों का उपयोग करके कंपनी को निदेश करने के लिए प्रकृतित तथा आयुक्त के कार्यालय का उल्लेख करते हुए एक संशोधित प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं।
मोवायरो टेक्नो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, सी-1206, वेस्टेक पार्क व्यू आनंद, सेक्टर 81, गुडगांव, हरियाणा
नॉर्ड बैंक के लिये तथा उसकी ओर से मोवायरो टेक्नो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा /- सचिव रत्नोती दिनांक: 05.08.2022 (निगम) निदेशक

बकिंगहम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
 सीआईएन: L22100DL1983PLC314401
 पंजीकृत कार्यालय: 38 एच/एच, रानी झांसी रोड, मेरिया चान, पहाड़गांव, दिल्ली-110055
 फोन: 0120-4038976, वेबसाइट: www.buckingham.in
 ई-मेल: buckingham1983@yahoo.com
सूचना
 एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बकिंगहम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संस्थापकों की अग्री वार्डिंग आम बैठक मुकुरम, 25 अगस्त, 2022 को दोपहर 12:00 बजे बीडिंग कॉन्फ्रेंस (ऑनलाइन/अथवा ऑडियो विडियो कॉन्फ्रेंस) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
 अधिनियम संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 ("एक्ट") के साथ अधिनियम संख्या 14/2020 दिनांक 08 अगस्त, 2020, अधिनियम संख्या 17/2020 दिनांक 13 अगस्त, 2020 तथा सेबी द्वारा जारी "सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं" ("सीआईएन/सीआईएन/ए/2020/78") ("नियम") के अनुसार और सीबीआईएन के नियमों के अंतर्गत निदेशक, एनसीआईएन की सूचना और सचिव को 2021-22 कंपनी के इन संस्थापकों के बीच 15 मई के दिनांक 04 अगस्त, 2022 को कंपनी/अवेदक के साथ पंजीकृत है। संस्थापक वरतन के कि कंपनी का निदेशक प्रोफे. 22 अगस्त एनसीआईन की बैठक सीटी/ओपीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है/अथवा संस्थापकों की शारीरिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है। संस्थापक संस्थापक प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया की सुविधा एनसीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
 नोटिस में शेयर धारिता करने वाले संस्थापकों की सूचना और शेयर ट्रांसफर एनसीआईएन के माध्यम से आयोजित किया जा सकता है। संस्थापक वरतन के कि कंपनी का निदेशक प्रोफे. 22 अगस्त एनसीआईन की बैठक सीटी/ओपीएम के माध्यम से आयोजित किया जाता है।
 कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.buckingham.in पर और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
 निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से कृते अनंत राज लिमिटेड
 (अमित सरिन)
 प्रबंध निदेशक
 डीआईएन : 00015837

FRUITION VENTURE LIMITED
 Regd. office: 21-A, 3rd Floor Savitri Bhawan, Commercial Complex Mukherjee Nagar, New Delhi - 110 009
 CIN: L74899DL1994PLC058524 Tel: +91-11-47082424
 Website: www.fv.com.in
 Email: csfruitionventure@gmail.com
NOTICE
 Pursuant to clause 41 of the listing Agreement, Notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, the 09th day of August, 2022 at A-21, 3rd Floor, Savitri Bhawan, Commercial Complex, Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009 to inter alia consider and approve the unaudited financial results of the Company for the quarter ending June 30, 2022.
For and on behalf of the Board
Fruition Venture Limited
 Sd/-
 (Sanhit Jain)
 DIN: 05339933

फार्म नं. आईएनसी-26
कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में
एक राज्य से अन्य राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्र सरकार को श्रेणी निदेशक, उन्नी क्षेत्र, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, दिल्ली के माध्यम से
दिल्ली के माध्यम से
 कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के नियम (5) के अंतर्गत (ए) के मामले में
तथा
मोवायरो टेक्नो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U63030DL2020PTC373814), जिसका पंजीकृत कार्यालय: आर-130, पुराी नौबत, जे.के. 1, डेरा फैशन, दिल्ली-110048, चार के नियम में
आवेदक
 एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "हरियाणा राज्य" से "राजस्थान राज्य" में उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को निदेश करने के लिए 20.7.2022 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विरोध प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन के परिचयन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी के निदेशक, उन्नी क्षेत्र, नई दिल्ली के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
 यह पुनः सूचित किया जाता है कि सेबी (संसाधक ट्रेडिंग का नियम) नियम, 2015, तथा संशोधन पर संशोधित किया गया, के लागू नियमों के अन्तर्गत में निवेश किए गए नामित व्यक्तियों ("आधार सहायक") द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए कंपनी की आधार सहायक के अनुसार कंपनी की प्रतिक्रियाओं में लेनदेन के लिए "ट्रेडिंग विंडो", 30 जून 2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 (अठ्ठातीस) घंटे बाद तक अधिकारियों, नामित कर्मचारियों और जुड़े व्यक्तियों के लिए बंद रहेगी।
 यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट <https://www.rcind.com> के साथ-साथ बीएसई की वेबसाइट <http://www.bseindia.com> पर भी उपलब्ध है।
 कृते आरसीआई इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा /- सचिव रत्नोती दिनांक: 05.08.2022 कंपनी सचिव एम. नं. 18636

प्रश्न सं. INCG-26
[कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
केन्द्र सरकार (उन्नी क्षेत्र) के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के अन्तर्गत (ए) के मामले में
तथा
मोवायरो टेक्नो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय: सी-1206, वेस्टेक पार्क व्यू आनंद, सेक्टर 81, गुडगांव, हरियाणा में है, के मामले में
आवेदक
 एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "हरियाणा राज्य" से "राजस्थान राज्य" में उपरोक्त पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को निदेश करने के लिए 20.7.2022 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विरोध प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेडम ऑफ एसोसिएशन के परिचयन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी के निदेशक, उन्नी क्षेत्र, नई दिल्ली के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एससी-21 धारा (4) के अंतर्गत अपने अधिकारों का उपयोग करके कंपनी को निदेश करने के लिए प्रकृतित तथा आयुक्त के कार्यालय का उल्लेख करते हुए एक संशोधित प्रस्ताव तैयार कर सकते हैं।
मोवायरो टेक्नो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, सी-1206, वेस्टेक पार्क व्यू आनंद, सेक्टर 81, गुडगांव, हरियाणा
नॉर्ड बैंक के लिये तथा उसकी ओर से मोवायरो टेक्नो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा /- सचिव रत्नोती दिनांक: 05.08.2022 (निगम) निदेशक

NOTICE
 Notice in accordance with notification no. 18/07/21-5hg/870 dated 05-07-2021, issued by the department of Housing and Urban Development (Housing Branch) for issuance of completion certificate: -
M/s Emaar India Limited is hereby publishing this notice for seeking feedback from allottee(s) for obtaining Completion Certificate of Community Centre, Sector 109 Mohali. As per above notification, GMADA officials shall visit the site on 16-08-2022 at 11 a.m. for final check and taking feedback. Above allottee(s) may extend their feedback, if any before the said officials on due date & time as above.

क्रमांक	विवरण	विवरण
1.	कारपोरेट असाधारण का नाम	दृष्टि इंडिया लिमिटेड
2.	कारपोरेट असाधारण के निगमन की तिथि	27/07/1994
3.	यह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कारपोरेट असाधारण निर्माण पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार-नई दिल्ली
4.	कारपोरेट पश्चात संस्था/कारपोरेट असाधारण का लिमिटेड एम्प्लॉयर्स पश्चात संस्था	U74899DL1994PLC060496
5.	कारपोरेट असाधारण का पंजीकृत कार्यालय पर प्रमाण का प्रकार (पत्र को संदर्भ दें)	सी-161, इस्ट आर फैशन, नई दिल्ली-110065
6.	इ-संवर्णन प्रस्ताव प्रक्रिया समाप्त की तिथि	04.08.2022 (कारपोरेट असाधारण का परिचयनाम ब्रुक करने के लिये न्यायिक परमाणु, प्रमाण पत्र नं. 04.08.2022 को आदेश पत्रिका में)
7.	कारपोरेट असाधारण का परिचयनाम ब्रुक करने की तिथि	04.08.2022 (कारपोरेट असाधारण का परिचयनाम ब्रुक करने के लिये न्यायिक परमाणु, प्रमाण पत्र नं. 04.08.2022 को आदेश पत्रिका में)
8.	परिचयनाम के रूप में कायदत प्रकृतित संस्था/प्रकृतित का नाम तथा पंजीकरण संख्या	प्रकृतित चोहान पंजीकरण सं. IBBI/PA-001/IP-P-02348/2020-2021/13447
9.	नोट नं. पंजीकृत परिचयनाम का पत्र तथा इमेज	5. कर्माचर कॉलेज, पंचवत्याला, सिरोही तालुका, अन्नापूर्णा चर्क दादर, बंगलूर, महाराष्ट्र-402034 ईमेल: